

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 385]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 14, 1968/अश्विन 22, 1890

No. 385]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 14, 1968/ASVINA 22, 1890

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT & COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 14th October 1968

S.O. 3620.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order to amend the Tractors (Price Control) Order, 1967, namely:—

1. This Order may be called the Tractors (Price Control) Amendment Order, 1968.

2. In the Tractors (Price Control) Order, 1967,

(i) in sub-clause (2) of clause 1, the words "except the State of Jammu and Kashmir" shall be omitted;

(ii) after clause 6, the following clause shall be inserted, namely:—

"6. A. Collection of Advances: No manufacturer or dealer shall receive from any person an amount exceeding rupees one hundred by way of advance towards the sale-price of the tractor."

[No. F. AE.Ind-II/5/37/66.]

R. V. SUBRAHMANYAN, Jt. Secy.

(1189)

